

To S. P. Tungji Beldari Tel.  
Ma a Manapuri, Const. Pvt. Ltd.

**Schedule XLV Form No. 134.**

E. C. P. W. D. N. wadla DIVISION

A. E. P. C. D. H. M. A. — SUB-DIVISION

MMSY (S.S.)

**Measurement Book**

234 ft.

प्रमाणित किया। इता है वि. इस मापी पुस्तक  
में महीने द्वारा छपाई पृष्ठ 100 (एक सौ) मात्र है।  
जो आ... ३१८२०.१.४... २३४७... सहायक  
अधिकारी ग्राम काम विभाग प्रमण्डल.. दिसंबर  
के नाम से निर्गत किया जाता है।  
जिसका निर्गत सं... २३४७ है।

*AB*  
24/8/2022  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Nawada

*AB*  
24.8.22

Sch. XLV - Form No. 134

E.E.R.W.D. Nawada DIVISION

A.E R.W.D. Huzna SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. २३४७

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W:- corner of road bazar				TOS ft	
Tumse Beldari talukoder					
MMSY (SC).					
A.S.O. no:- 06/M.M.S.Y./SBD/2021-22					
As per:- one Amrapurani cons. Pvt. Ltd.					
Date of start:- 12.06.02					
Date of completion:- 11.06.02					
Date of measurement:- 13.09.02					
Date of entry:- 13.09.02					
① Working benchmarks pillars--					
$9 \times 30.00 = 270.00 \text{ m.}$					
$\approx 0.270 \text{ Km.}$					
② Reference pillars--					
$9 \times 30.00 = 270.00 \text{ m.}$					
$\approx 0.270 \text{ Km.}$					
③ Clearing & scrubbing road					
Land -					
$9 \times 30.00 \times 5.00 = 1350.00 \text{ m}^2$					
$\approx 0.135 \text{ Hec.}$					

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>(4) Coarse aggregate sub base with well graded - - -</u>						
$8 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.100 = 90.00 \text{ m}^3$						
$1 \times 10.00 \times 3.75 \times 0.100 = 3.75 \text{ m}^3$						
$1 \times 20.00 \times \left(\frac{3.75+4.75}{2}\right) \times 0.100 = 8.50 \text{ m}^3$						
Total :- $102.25 \text{ m}^3$ .						
<u>13.09.023</u>						
<u>SE</u>						
<u>(5) Date of measurement</u>						
Date of measurement :- 17.10.023						
<u>Date of casting</u> - 17.10.023						
<u>(6) WBM Grading-3 - - -</u>						
$8 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.075 = 67.50 \text{ m}^3$						
$1 \times 10.00 \times 3.75 \times 0.075 = 2.813 \text{ m}^3$						
$1 \times 20.00 \times \left(\frac{3.75+4.75}{2}\right) \times 0.075 = 6.375 \text{ m}^3$						
Total :- $76.688 \text{ m}^3$ .						
<u>17.10.023</u>						
<u>SE</u>						

Continuation

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2.00 m <sup>3</sup> (rule P-08)					
@ Rs. 489.13 / m <sup>3</sup> = Rs. 978.00/-					

(35) Brick masonry with cm (1:9) -

in foundation ---

5.50 m<sup>3</sup> (rule P-08)

@ Rs. 5368.83 / m<sup>3</sup> = Rs. 29529.00/-

(36) Plastering with cm (1:9) -

44.00 m<sup>2</sup> (rule P-09)

@ Rs. 139.11 / m<sup>2</sup> = Rs. 6121.00/-

(37) Cement burning -

44.00 m<sup>2</sup> (rule P-09)

@ Rs. 50.80 / m<sup>2</sup> = Rs. 2235.00/-

(38) Planting of tree by the -

14.00 nos. (rule P-13)

@ Rs. 800 / each = Rs. 11200.00/-

Total: Rs. 3174429.00/-

Add GST @ 12% : (Rs. 380931.00/-)

Add LC @ 1% : (Rs. 31794.00/-)

Add S.P.R (rule P-13) : Rs. 38076.00/-

Total: - Rs. 3625180.00/-

Less 13.27 % off (below) : (Rs. 481061.00/-)

Rs. 3144119.00/-

Continuation

27.05.02  
SE